

Tips of the day, For 12th class

1. एक बार में ज्यादा विषयों को हाथ न लगाएं
2. एक से डेढ़ घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई ना करें
3. रात के वक्त दिन भर की गई पढ़ाई को ब्रशअप जरूर कर लें।
4. नींद पूरी करने का भी ध्यान दें।
5. दिमागी कसरत जैसे कि सोचना, पढ़ना, पहेली बूझना आदि लाभदायक हो सकती है।
4. बादाम की गिरि का रोज सुबह सेवन करना भी लाभदायक है।
5. लिखकर ही तैयारी करने का अभ्यास करें।
6. एनसीईआरटी के अध्यायों, उनके उदाहरणों और प्रश्नों को ठीक तरह से समझ लें।
7. प्रत्येक विषय में कम से कम 10 से 15 सैंपल पेपर जरूर हल करें।
8. रिविजन के लिए अपने बनाए गए नोट्स पर ज्यादा विश्वास करें।
9. प्रैक्टिकल की तैयारी सही ढंग से करें।
10. परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट अवश्य करें।
11. तेज गति से लिखावट आपको अतिरिक्त लाभ दिलाने में सहायक हो सकती है।

12. तैयारी के समय अलग-अलग टॉपिक्स की अंक के मान को याद रखें।